



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

No. 284]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2009/माघ 24, 1930  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2009/MAGHA 24, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2009

का.आ. 465(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2139(अ), तारीख 29 अगस्त, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के विल्लूपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 3.600 कि.मी. से 37.920 कि.मी. (पांडिचेरी-टिण्डीवनम सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 5 अक्टूबर, 2008 को “दि हिन्दू” और “दिनाथोथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के 3.500 कि. मी. से 37.920 कि. मी. ( पांडिचेरी - टिण्डीवनम सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन:

| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या   |                   | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम  |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---|
|             |             |              |             | पूर्ववर्ती उप मंडल | पश्चवर्ती उप मंडल |                |                 |                           |   |
| 1           | 2           | 3            | 4           | 5                  |                   | 6              | 7               | 8                         | 9   |
| 1           | विल्लुपुरम  | वेनूर        | (1) इरुमबई  | 13/8               | 13/8बी            | निजी           | नम              | 440                       | रासु गाउंडर पुत्र अनीकुट्टी   |
|             |             |              |             | 15/1               | 15/1बी            | निजी           | नम              | 8440                      | वेलमुरुगन पुत्र कुप्पुसामी  |
|             |             |              |             | 15/3बी             | 15/3बी2           | निजी           | नम              | 407                       | अरुलमिगु कलीश्वर मन्दिर   |
|             |             |              |             | 15/3बी             | 15/3बी3           | निजी           | नम              | 12                        | अरुलमिगु कलीश्वर मन्दिर   |
|             |             |              |             | 15/5               | 15/5बी            | निजी           | नम              | 650                       | कान्नाम्मल पत्नी कान्नान  |
|             |             |              |             | 15/6               | 15/6बी            | निजी           | नम              | 2390                      | सुन्दामुथि पुत्र कुप्पुसामी   |
|             |             |              |             | 16/1बी             | 16/1बी2           | निजी           | नम              | 32                        | मल्लिका पत्नी कृष्णन  |
|             |             |              |             | 16/1बी             | 16/1बी2           | निजी           | नम              | 113                       | अरुमुगम पुत्र गोपाल   |
|             |             |              |             | 16/3ए              | 16/4ए2            | निजी           | नम              | 300                       | अरुमुगम पुत्र गोपाल   |
|             |             |              |             | 16/4बी             | 16/4बी2           | निजी           | नम              | 500                       | गनानावेल पुत्र मुरुगन   |
|             |             |              |             | 16/5               | 16/5बी            | निजी           | नम              | 1595                      | 1. नटराजन पुत्र राजामनी<br>2. जयाकुमार पुत्र राजामनी  |
|             |             |              |             | 52/3               | 52/3बी            | निजी           | शुष्क           | 117                       | नारायणसामी पुत्र पुथिरा गाउंडर  |
|             |             |              |             | 52/4               | 52/4बी            | निजी           | शुष्क           | 500                       | 1. अम्मानियम्मल पत्नी सेलवाराज<br>2. थिरुनावुकारासु पुत्र नारायणसामी  |
|             |             |              |             | 52/5               | 52/5              | निजी           | शुष्क           | 850                       | 1. नारायणनसामी पुत्र पुथिरा गाउंडर<br>2. थिरुनावुकारासु पुत्र नारायणसामी  |
|             |             |              |             | 52/6               | 52/6बी            | निजी           | शुष्क           | 550                       | ट्रस्ट अरुलमीगु मरीयाम्मान कोईल   |
|             |             |              |             | 52/7               | 52/7बी            | निजी           | शुष्क           | 960                       | अरुलमिगु महा कलीश्वर मन्दिर   |
|             |             |              |             | 52/13ए             | 52/13ए2           | निजी           | शुष्क           | 5850                      | जयकुमार पुत्र राजामनी   |
|             |             |              |             | 52/14              | 52/14बी           | निजी           | शुष्क           | 2248                      | अरुलमिगु महा कलीश्वर मन्दिर   |
|             |             |              |             | 53/1               | 53/1बी            | निजी           | शुष्क           | 550                       | जयरामन नायडु पुत्र देवाराजुलु नायडु   |
|             |             |              |             | 53/2               | 53/2              | निजी           | शुष्क           | 950                       | गाविन्दाराजुलु पुत्र बालाकृष्णन   |
|             |             |              |             | 53/3               | 53/3बी            | निजी           | शुष्क           | 800                       | वैक्टासामी पुत्र सामी नायडु   |
|             |             |              |             | 53/4               | 53/4बी            | निजी           | शुष्क           | 1053                      | रामानुजम पुत्र वैक्टासामी नायडु, गार्डियन मदर जनागाम्मल   |
|             |             |              |             | 53/5               | 53/5बी            | निजी           | शुष्क           | 850                       | वरधाराजु नायडु पुत्र सामी नायडु   |
|             |             |              |             | 53/6ए              | 53/6ए2            | निजी           | शुष्क           | 52                        | 1. रामासामी पिल्लै पुत्र अनाईया पिल्लै<br>2. गोविन्दाराजुलु पुत्र बालाकृष्णन<br>3. सामीनाथा गुरुकुल पुत्र राजामनी<br>4. अमुथा पत्नी सुन्दा विनायागम |
|             |             |              |             | 53/7               | 53/7बी            | निजी           | शुष्क           | 8300                      | नटराजन पुत्र राजामनी  |
|             |             |              |             | 53/9               | 53/9बी            | निजी           | शुष्क           | 1500                      | वरधाराजु नायडु पुत्र सामी नायडु   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5       |         | 6    | 7     | 8     | 9  |
|---|---|---|---|---------|---------|------|-------|-------|--|
|   |   |   |   | 55/1    | 55/1बी  | निजी | शुष्क | 2250  | गाविन्दाम्मल पत्नी जयारामन नायडु                 |
|   |   |   |   | 56/4    | 56/4बी  | निजी | शुष्क | 3650  | जयारामन नायडु पुत्र देवाराजलु नायडु              |
|   |   |   |   | 56/5    | 56/5बी  | निजी | शुष्क | 409   | 1. एस कुप्पाम्मल<br>2. अनदाल पत्नी नागामुथु      |
|   |   |   |   | 56/6    | 56/6बी  | निजी | शुष्क | 308   | अनदाल पत्नी नागामुथु                             |
|   |   |   |   | 56/7ए   | 56/7ए2  | निजी | शुष्क | 260   | अनदाल पत्नी नागामुथु                             |
|   |   |   |   | 56/7बी2 | 56/7बी2 | निजी | शुष्क | 300   | भुमिनघानाम बोर्ड                                 |
|   |   |   |   | 56/7सी  | 56/7सी2 | निजी | शुष्क | 40    | भुमिनघानाम बोर्ड                                 |
|   |   |   |   | 64/3ए   | 64/3ए2  | निजी | शुष्क | 2960  | जयाराम नायडु पुत्र देवाराजलु नायडु               |
|   |   |   |   | 66/1    | 66/1बी  | निजी | शुष्क | 280   | 1. नटराजन पुत्र पेरुमल<br>2. इथिराज पुत्र पेरुमल |
|   |   |   |   | 66/2    | 66/2बी  | निजी | शुष्क | 175   | धनबाबल पुत्र पेरुमल                              |
|   |   |   |   | 66/3    | 66/3बी  | निजी | शुष्क | 70    | रंगानाथन पुत्र पौगावनम                           |
|   |   |   |   | 66/4    | 66/4बी  | निजी | शुष्क | 4     | धनबाबल पुत्र पेरुमल                              |
|   |   |   |   | 66/6    | 66/6बी  | निजी | शुष्क | 97    | पेरुमल पुत्र राघवन                               |
|   |   |   |   | 68/1    | 68/1बी  | निजी | शुष्क | 1875  | ईन्द्राणी पत्नी नामदेव गारुडर                    |
|   |   |   |   | 68/2    | 68/2बी  | निजी | शुष्क | 10500 | कुप्पुसामी पुत्र वरधाराजलु नायडु                 |
|   |   |   |   | 70/2    | 70/2बी  | निजी | शुष्क | 1130  | नटराजन पुत्र सामीकानु                            |
|   |   |   |   | 70/5    | 70/5बी  | निजी | शुष्क | 732   | नारायणसामी पुत्र पुत्रीरा गारुडर                 |
|   |   |   |   | 70/6    | 70/6बी  | निजी | शुष्क | 835   | सचिव अरुविले फाउंडेशन                            |
|   |   |   |   | 70/7    | 70/7बी  | निजी | शुष्क | 1730  | सुब्रामना पुत्र वेलायुधा गारुडर                  |
|   |   |   |   | 70/8    | 70/8बी  | निजी | शुष्क | 3200  | कृष्णामुथि पुत्र वेल्लामुथु                      |
|   |   |   |   | 70/9    | 70/9बी  | निजी | शुष्क | 67    | ए सिवागमी अम्मल                                  |
|   |   |   |   | 70/13   | 70/13बी | निजी | शुष्क | 63    | रामासामी पुत्र वैक्तासामी                        |
|   |   |   |   | 71/7    | 71/7बी  | निजी | शुष्क | 450   | गोविन्दाम्मल पत्नी नटेश गारुडर                   |
|   |   |   |   | 71/8    | 71/8बी  | निजी | शुष्क | 280   | वेल गारुडर पुत्र विन्नासामी                      |
|   |   |   |   | 75/1    | 75/1बी  | निजी | शुष्क | 2000  | जयारामा नायडु पुत्र देवाराजलु नायडु              |
|   |   |   |   | 75/2    | 75/2बी  | निजी | शुष्क | 1380  | राजगोपाल पुत्र सामीकानु                          |
|   |   |   |   | 75/3    | 75/3बी  | निजी | शुष्क | 22    | वेलामुरुगन पुत्र राजागोपाल                       |
|   |   |   |   | 75/5    | 75/5बी  | निजी | शुष्क | 863   | राजगोपाल पुत्र सामीकानु                          |
|   |   |   |   | 75/6    | 75/6बी  | निजी | शुष्क | 1945  | गोविन्दासामी गारुडर मुथुसामी गारुडर              |
|   |   |   |   | 75/7    | 75/7बी  | निजी | शुष्क | 5830  | नारायणसामी पुत्र पुत्रीरा गारुडर                 |
|   |   |   |   | 75/9    | 75/9बी  | निजी | शुष्क | 774   | थिरुनावुकारसु पुत्र नारायणसामी                   |
|   |   |   |   | 75/11ए  | 75/11ए2 | निजी | शुष्क | 1230  | तमिजारासी पत्नी थिरुवेनगादम                      |
|   |   |   |   | 75/12   | 75/12बी | निजी | शुष्क | 1638  | तमिजारासी पत्नी थिरुवेनगादम                      |
|   |   |   |   | 106/2   | 106/2बी | निजी | शुष्क | 2460  | वरधाराजु पुत्र दुराईसामी                         |
|   |   |   |   | 106/3   | 106/3बी | निजी | शुष्क | 3870  | गेजाराज अम्मल पत्नी वरधाराजु नायडु               |
|   |   |   |   | 106/5   | 106/5बी | निजी | शुष्क | 526   | कृष्णान पुत्र बदीवेल                             |
|   |   |   |   | 107/5   | 107/5बी | निजी | शुष्क | 5325  | लक्ष्मी देवी पत्नी राजागोपाल                     |
|   |   |   |   | 107/6   | 107/6बी | निजी | शुष्क | 815   | ट्रस्ट अरुलमीगु मरीयाम्मान कोईल                  |
|   |   |   |   | 107/7   | 107/7बी | निजी | शुष्क | 53    | गोविन्दाथनथिरियर पुत्र सदासिवथानथिरियार          |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5      | 6        | 7    | 8     | 9    |  |
|---|---|---|---|--------|----------|------|-------|------|--|
|   |   |   |   | 107/10 | 107/10बी | निजी | शुष्क | 1609 | सचिव अरुविले फाउंडेशन                                |
|   |   |   |   | 108/6  | 108/6बी  | निजी | शुष्क | 28   | सामीकानु पुत्र रावुरायन                              |
|   |   |   |   | 108/7  | 108/7बी  | निजी | शुष्क | 1047 | माचामाधी पत्नी गुनाशेखर                              |
|   |   |   |   | 108/8  | 108/8    | निजी | शुष्क | 1400 | के नटेशन गाउंडर                                      |
|   |   |   |   | 108/9  | 108/9बी  | निजी | शुष्क | 560  | गेजाराज अम्मल पत्नी वरधाराजु नायडु                   |
|   |   |   |   | 108/10 | 108/10बी | निजी | शुष्क | 220  | वरधाराजुलु नायडु पुत्र सामी नायडु                    |
|   |   |   |   | 110/6  | 110/6बी  | निजी | शुष्क | 710  | लोगानाथन पुत्र ईकामबाराम                             |
|   |   |   |   | 110/7  | 110/7बी  | निजी | शुष्क | 28   | सचिव अरुविले फाउंडेशन                                |
|   |   |   |   | 110/7  | 110/7सी  | निजी | शुष्क | 5430 | सचिव अरुविले फाउंडेशन                                |
|   |   |   |   | 111/1  | 111/1बी  | निजी | शुष्क | 150  | कमलाबाल पत्नी कुप्पुसामी गाउंडर                      |
|   |   |   |   | 111/2  | 111/2बी  | निजी | शुष्क | 9244 | सचिव अरुविले फाउंडेशन                                |
|   |   |   |   | 111/3  | 111/3बी  | निजी | शुष्क | 490  | काजापति पुत्र थानांजेजीयन                            |
|   |   |   |   | 111/4  | 111/4बी  | निजी | शुष्क | 22   | सचिव अरुविले फाउंडेशन                                |
|   |   |   |   | 118/1ए | 118/1ए2  | निजी | शुष्क | 220  | चैकटेशन पुत्र बालासुब्रामणियन मुदिलीयार              |
|   |   |   |   | 118/2ए | 118/2ए2  | निजी | शुष्क | 4510 | सचिव अरुविले फाउंडेशन                                |
|   |   |   |   | 64/3बी | 64/3बी2  | निजी | मनाई  | 4250 | सरकारी   |
|   |   |   |   | 64/4बी |          |      |       |      |  |
|   |   |   |   | 64/5   |          |      |       |      |  |
|   |   |   |   | 64/6   | 64/6     | निजी | मनाई  | 250  | पावधी पुत्र गोपाल                                    |
|   |   |   |   | 64/7   | 64/7     | निजी | मनाई  | 150  | कान्नपान पुत्र लक्ष्मणन                              |
|   |   |   |   | 64/8   | 64/17    | निजी | मनाई  | 204  | रामदोस पुत्र गोविन्दासामी                            |
|   |   |   |   | 64/9   | 64/18    | निजी | मनाई  | 13   | नामासी पुत्र सेमबान                                  |
|   |   |   |   | 431/4  | 431/4    | निजी | मनाई  | 100  | कृष्णन पुत्र पेरुमल                                  |
|   |   |   |   | 431/9  | 431/9    | निजी | मनाई  | 60   | विराप्पान  |
|   |   |   |   | 431/10 | 431/10   | निजी | मनाई  | 200  | मुथुसामी पुत्र पेशियासामी                            |
|   |   |   |   | 431/11 | 431/11   | निजी | मनाई  | 204  | अदाल पत्नी नागामुथु                                  |
|   |   |   |   | 431/13 | 431/13   | निजी | मनाई  | 34   | कान्नीयान पुत्र मंजीनी                               |
|   |   |   |   | 431/14 | 431/14   | निजी | मनाई  | 37   | कान्नीयान पुत्र मंजीनी                               |
|   |   |   |   | 431/15 | 431/15   | निजी | मनाई  | 79   | पेशियासामी पुत्र रासु                                |
|   |   |   |   | 431/16 | 431/16   | निजी | मनाई  | 77   | मांगलक्ष्मी पत्नी पेशियासामी                         |
|   |   |   |   | 431/17 | 431/17   | निजी | मनाई  | 84   | शेखर पुत्र मुनुसामी                                  |
|   |   |   |   | 431/18 | 431/18   | निजी | मनाई  | 100  | मुनुसामी पुत्र पेशियासामी                            |
|   |   |   |   | 431/19 | 431/19   | निजी | मनाई  | 86   | ईलुमलाई पुत्र पेशियासामी                             |
|   |   |   |   | 431/21 | 431/21   | निजी | मनाई  | 87   | मुथम्मल पत्नी कानीयन                                 |
|   |   |   |   | 431/22 | 431/22   | निजी | मनाई  | 61   | पथाम्मल पत्नी कालीयाप्पान                            |
|   |   |   |   | 431/23 | 431/23   | निजी | मनाई  | 48   | 1.कान्नान पुत्र सुन्दराम<br>2.कामचीम्मल पत्नी धनाबाल |
|   |   |   |   | 431/25 | 431/25   | निजी | मनाई  | 51   | कामचीम्मल पत्नी धनाबाल                               |
|   |   |   |   | 431/27 | 431/27   | निजी | मनाई  | 112  | धनारोबी पत्नी चिन्नाथामबी                            |
|   |   |   |   | 431/28 | 431/28   | निजी | मनाई  | 65   | कामचीम्मल पत्नी धनाबाल                               |
|   |   |   |   | 431/3  | 431/32   | निजी | मनाई  | 62   | एस पोन्नुसामी  |
|   |   |   |   | 431/29 | 431/34   | निजी | मनाई  | 650  | रमालिगम पुत्र थंगावेलु                               |
|   |   |   |   | 433/9  | 433/9    | निजी | मनाई  | 183  | शिवागामी पत्नी विनायगम                               |
|   |   |   |   | 433/11 | 433/11   | निजी | मनाई  | 120  | अधिलक्ष्मी पत्नी गोविन्दान                           |
|   |   |   |   | 433/12 | 433/12   | निजी | मनाई  | 120  | गोविन्दासामी पत्नी नटेशन                             |
|   |   |   |   | 433/6  | 433/18   | निजी | मनाई  | 18   | भानुमति पत्नी धनदाबानी                               |

| 1 | 2 | 3 | 4               | 5        | 6        | 7     | 8     | 9                                  |   |
|---|---|---|-----------------|----------|----------|-------|-------|------------------------------------|---|
|   |   |   | (2)पुलिचापल्लम  | 433/7    | 433/19   | निजी  | मनाई  | 107                                | ईथिरासु पुत्र पेरुमल  |
|   |   |   |                 | 433/8    | 433/20   | निजी  | मनाई  | 195                                | लक्ष्मणन पुत्र वरनामुथु   |
|   |   |   |                 | 132/3बी  | 132/3बी  | निजी  | शुष्क | 1306                               | अध्यक्ष पाउल इजुकेशन ट्रस्ट   |
|   |   |   |                 | 132/4बी  | 132/4बी  | निजी  | शुष्क | 94                                 | अध्यक्ष पाउल इजुकेशन ट्रस्ट   |
|   |   |   |                 | 253/1बी  | 253/1बी  | निजी  | शुष्क | 323                                | अध्यक्ष पाउल इजुकेशन ट्रस्ट   |
|   |   |   |                 | 257/1सी  | 257/1बी  | निजी  | शुष्क | 67                                 | मुरुगामल पत्नी ईकामबारम   |
|   |   |   |                 | 301/5बी  | 301/5बी  | निजी  | शुष्क | 73                                 | 1. मान्नाथा गाउंडर पुत्र अधिमोलाम<br>2. सेलवामनी पत्नी ईलुमलाई  |
|   |   |   |                 | 302/12बी | 302/12बी | निजी  | शुष्क | 110                                | 1.मनजीनि पुत्र सदासिव गाउंडर<br>2. के शंकर<br>3. वेलु पुत्र ईलुमलाई                                       |
|   |   |   |                 | 305/5एफ  | 305/5एफ  | निजी  | शुष्क | 100                                | वरधाराजन पुत्र चिन्नाकान्नु   |
|   |   |   |                 | 307/5बी  | 307/5बी  | निजी  | शुष्क | 82                                 | जगदम्बाल पत्नी सुब्बाईया गाउंडर   |
|   |   |   |                 | 320/5बी  | 320/5बी  | निजी  | शुष्क | 355                                | 1.नामदेव पुत्र विथाई<br>2. शानमुगम पुत्र रामासामी   |
|   |   |   |                 | 320/6बी  | 320/6बी  | निजी  | शुष्क | 402                                | कृष्ण गाउंडर पुत्र मान्नाथा गाउंडर  |
|   |   |   |                 | 320/8बी  | 320/8बी  | निजी  | शुष्क | 624                                | 1.देवराज पुत्र मोलाकुरीची<br>2. राजावेल पुत्र रंगनाथन<br>3. रानी पत्नी नटेशन<br>4. पचीयम्मल पत्नी रंगनाथन |
|   |   |   |                 | 324/4बी  | 324/4बी  | निजी  | शुष्क | 130                                | 1. राघवन पुत्र गोपाल<br>2. रेवती राघवन पत्नी राघवन  |
|   |   |   |                 | 325/3बी  | 325/3बी  | निजी  | शुष्क | 916                                | 1. राघवन पुत्र गोपाल<br>2. रेवती राघवन पत्नी राघवन  |
|   |   |   |                 | 325/4बी  | 325/4बी  | निजी  | शुष्क | 787                                | 1. राघवन पुत्र गोपाल<br>2. रेवती राघवन पत्नी राघवन  |
|   |   |   | (3)थेनकोडीपक्कम | 519/2बी  | 519/2बी  | निजी  | शुष्क | 727                                | 1.कुप्पुसामी नायडु पुत्र गोविन्दासामी<br>2. अरुमुगम नायडु पुत्र गोपाल                                     |
|   |   |   |                 | 522/1बी  | 522/1बी  | निजी  | शुष्क | 83                                 | जयालक्ष्मी पत्नी रामदास नायडु   |
|   |   |   |                 | 123      | 123/2    | निजी  | शुष्क | 2460                               | कालाईमगल सभा  |
|   |   |   |                 | 125/1    | 125/1बी  | निजी  | शुष्क | 3500                               | मुरली, (ए) रघुराम पुत्र सुबंरामणि रेडियर  |
|   |   |   |                 | 125/7    | 125/7बी  | निजी  | शुष्क | 360                                | कृष्णन पुत्र सरवाई  |
|   |   |   |                 | 125/10   | 125/10बी | निजी  | शुष्क | 305                                | सुब्रामणियन पुत्र कुप्पान   |
|   |   |   |                 | 125/11   | 125/11बी | निजी  | शुष्क | 270                                | चिनाकुलांदी पुत्री सरवाई  |
|   |   |   |                 | 126/14   | 126/14बी | निजी  | शुष्क | 3                                  | ईयानथोती पुत्र मुनीयान  |
|   |   |   |                 | 126/16   | 126/16बी | निजी  | शुष्क | 1200                               | चिनाकुलांदी पुत्री सरवाई  |
|   |   |   |                 | 126/17   | 126/17बी | निजी  | शुष्क | 730                                | कृष्णन पुत्र सरवाई  |
|   |   |   |                 | 130/1    | 130/1बी  | निजी  | शुष्क | 375                                | 1. पेरुमल पुत्र सीनु कोनदेर<br>2. जयारामन<br>3. ईरुसप्पान   |
|   |   |   |                 | 130/2    | 130/2बी  | निजी  | शुष्क | 550                                | एस एम मोहन  |
|   |   |   | 130/2           | 130/2सी  | निजी     | शुष्क | 500   | एस एम मोहन                         |   |
|   |   |   | 130/4           | 130/4बी  | निजी     | शुष्क | 585   | राजावेनीममल पत्नी मसीलामनी कोउनदेर |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5       | 6        | 7    | 8     | 9    |   |
|---|---|---|---|---------|----------|------|-------|------|---|
|   |   |   |   | 130/5   | 130/5बी  | निजी | शुष्क | 895  | रंगानाथन कोनदर पुत्र धमाथारा कोनदर  |
|   |   |   |   | 133/12  | 133/12बी | निजी | शुष्क | 2255 | पांदुरंगान पुत्र सुब्रामनी  |
|   |   |   |   | 138/1   | 138/1बी  | निजी | शुष्क | 515  | मेरीम्मल पत्नी अंगाप्पान  |
|   |   |   |   | 138/2   | 138/2बी  | निजी | शुष्क | 505  | मंगालिंगम पुत्र नरायणन सामी कोनदर   |
|   |   |   |   | 138/5   | 138/5बी  | निजी | शुष्क | 940  | विरापाडियु पुत्र मनीक्कम  |
|   |   |   |   | 143/1ए  | 143/1ए2  | निजी | शुष्क | 445  | सेलवामनी पुत्र नटेशन कोनदर  |
|   |   |   |   | 143/1बी | 143/1बी2 | निजी | शुष्क | 525  | 1. कुनाशेकरण पुत्र रामु कोउदेर<br>2. अन्नसुईया पत्नी रंगानाथा रेडियर<br><br>3. मीनतची पत्नी देवनाथा रेडियर<br>कान्नान पुत्र मनीक्कम |
|   |   |   |   | 144/2ए  | 144/2ए2  | निजी | शुष्क | 770  | सेलवामनी पुत्र नटेशन पिल्लै   |
|   |   |   |   | 144/2बी | 144/2बी2 | निजी | शुष्क | 400  | सेलवामनी पुत्र नटेशन पिल्लै   |
|   |   |   |   | 146/8   | 146/8बी  | निजी | शुष्क | 185  | एस एम मोहन  |
|   |   |   |   | 146/9   | 146/9बी  | निजी | शुष्क | 3125 | मंगालक्ष्मी पत्नी नरायणसामी   |
|   |   |   |   | 146/10  | 146/10बी | निजी | शुष्क | 1035 | रवि पुत्र कान्नीयप्पा कोनदर   |
|   |   |   |   | 147/2   | 147/2बी  | निजी | शुष्क | 240  | 1. अनगाप्पान पुत्र पाचीयप्पा कोनदर<br><br>2. मनीक्कम पुत्र पाचीयप्पा कोनदर<br><br>3. सुब्रामणियन पुत्र पाचीयप्पा कोनदर              |
|   |   |   |   | 147/3   | 147/3बी  | निजी | शुष्क | 530  | अनगाप्पान पुत्र पाचीयप्पा कोनदर   |
|   |   |   |   | 147/4   | 147/4बी  | निजी | शुष्क | 1175 | अनगाप्पान पुत्र पाचीयप्पा कोनदर   |
|   |   |   |   | 185/2   | 185/2    | निजी | मनाई  | 79   | थंगावेल पिल्लै पुत्र मुरुगेशा पिल्लै  |
|   |   |   |   | 185/5   | 185/5    | निजी | मनाई  | 71   | ईल्लाम्मल पत्नी राजेन्द्रन  |
|   |   |   |   | 185/6   | 185/6    | निजी | मनाई  | 101  | सेल्लाम्मल पत्नी सामीकान्नु पिल्लै  |
|   |   |   |   | 185/7   | 185/7बी  | निजी | मनाई  | 50   | अरुमुगम पुत्र कुप्पुसामी  |
|   |   |   |   | 185/12  | 185/12   | निजी | मनाई  | 118  | अथीलाकसमीम्मल पत्नी पलानि कोनदर   |
|   |   |   |   | 185/13  | 185/13बी | निजी | मनाई  | 191  | पांदुरंगान पुत्र मुरुगेशन पिल्लै  |
|   |   |   |   | 185/17  | 185/17   | निजी | मनाई  | 345  | चन्द्रा कोनदर पुत्र विरापाथिरा कोनदर  |
|   |   |   |   | 185/19  | 185/19   | निजी | मनाई  | 148  | रंगानाथन कोनदर पुत्र नटेश कोनदर   |
|   |   |   |   | 185/20  | 185/20   | निजी | मनाई  | 123  | विथिलिंगम पुत्र मुनुसामी कोनदर  |
|   |   |   |   | 185/21  | 185/21   | निजी | मनाई  | 121  | मनी पुत्र गोपल मेसथिरी  |
|   |   |   |   | 185/22  | 185/22बी | निजी | मनाई  | 88   | मनी पुत्र गोपल मेसथिरी  |
|   |   |   |   | 185/23  | 185/23   | निजी | मनाई  | 215  | माला पत्नी मगाराजन  |
|   |   |   |   | 185/24  | 185/24   | निजी | मनाई  | 39   | थंगावेल पिल्लै पुत्र मुरुगेशा पिल्लै  |
|   |   |   |   | 186/3   | 186/3    | निजी | मनाई  | 600  | नरायणसामी पुत्र थिरुवेकाटा कोनदर  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5       | 6        | 7    | 8     | 9   |  |
|---|---|---|---|---------|----------|------|-------|-----|--|
|   |   |   |   | 186/4ए  | 186/4ए   | निजी | मनाई  | 261 | सेनगेनी पत्नी रामालिंगम पिल्लै   |
|   |   |   |   | 186/4बी | 186/4बी2 | निजी | शुष्क | 12  | सेनगेनी पत्नी रामालिंगम पिल्लै   |
|   |   |   |   | 186/5ए  | 186/5ए2  | निजी | शुष्क | 400 | 1. कुनशेकरण पुत्र रामासामी कोनदेर<br>2. जयापाल<br>3. गोविन्दन<br>4. समपतं<br>5. कमलाकान्ना<br>6. अरुमुगम पुत्र ईलुमलाई |
|   |   |   |   | 186/5बी | 186/5बी2 | निजी | शुष्क | 45  | 1. कुनशेकरण पुत्र रामासामी कोनदेर<br>2. जयापाल<br>3. गोविन्दन<br>4. समपतं<br>5. कमलाकान्ना<br>6. अरुमुगम पुत्र ईलुमलाई |
|   |   |   |   | 186/6ए  | 186/6ए2  | निजी | शुष्क | 246 | 1. नटेश पिल्लै पुत्र चिन्नाथमबी<br>2. ईलुमलाई पुत्र रामासामी<br>3. पांदुरंगन पुत्र सुब्रामनी                           |
|   |   |   |   | 186/6बी | 186/6बी2 | निजी | शुष्क | 380 | 1. नटेश पिल्लै पुत्र चिन्नाथमबी<br>2. ईलुमलाई पुत्र रामासामी<br>3. पांदुरंगन पुत्र सुब्रामनी                           |
|   |   |   |   | 282/1   | 282/1    | निजी | मनाई  | 117 | अंजालचि पत्नी कन्नीयाप्पान   |
|   |   |   |   | 282/2   | 282/2बी  | निजी | मनाई  | 69  | अरुमुगम पुत्र कुप्पुसामी   |
|   |   |   |   | 282/3   | 282/3बी  | निजी | मनाई  | 153 | चन्द्रा कोनदेर पुत्र विरापाथिरा कोनदेर   |
|   |   |   |   | 282/6   | 282/6    | निजी | मनाई  | 54  | नटराजन पुत्र कोदीया कोनार  |
|   |   |   |   | 282/7   | 282/7    | निजी | मनाई  | 117 | महाराजन पुत्र पाचियाप्पा कोनदेर  |
|   |   |   |   | 196/4ए  | 196/4ए   | निजी | मनाई  | 50  | 1. शंकर पुत्र मनी<br>2. मोहन पुत्र मनी<br>3. गणेशन पुत्र मनी   |
|   |   |   |   | 196/4बी | 196/4बी  | निजी | शुष्क | 179 | 1. सुबुरायन पुत्र थिरुवैकाटा कोनदेर<br>2. कान्ना<br>3. पेरुमल पुत्र सीनु कोनदेर<br>4. जयारामन पुत्र सीनु कोनदेर        |
|   |   |   |   | 196/4सी | 196/4सी2 | निजी | शुष्क | 114 | 1. सुबुरायन पुत्र थिरुवैकाटा कोनदेर<br>2. कान्ना<br>3. पेरुमल पुत्र सीनु कोनदेर<br>4. जयारामन पुत्र सीनु कोनदेर        |
|   |   |   |   | 196/4डी | 196/4डी2 | निजी | मनाई  | 145 | शेखर पुत्र पेरुमल कोनदेर   |
|   |   |   |   | 196/5ए  | 196/5ए2  | निजी | शुष्क | 14  | 1. शंकर पुत्र नरासु रेडियर<br>2. सुन्दरवाराधन पुत्र नरासु रेडियर   |
|   |   |   |   | 196/5बी | 196/5बी2 | निजी | मनाई  | 193 | मावान पुत्र पचाईयप्पा कोनदेर   |
|   |   |   |   | 196/5सी | 196/5सी2 | निजी | मनाई  | 125 | महाराजन पुत्र पाचियाप्पा कोनदेर  |
|   |   |   |   | 196/5डी | 196/5डी2 | निजी | मनाई  | 125 | मनी पुत्र पाचियाप्पा कोनदेर  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5         | 6         | 7    | 8     | 9    |  |
|---|---|---|---|-----------|-----------|------|-------|------|--|
|   |   |   |   | 196/5ई    | 196/5ई2   | निजी | मनाई  | 122  | सुब्रामणियन पुत्र पाचियप्पा कोनदेर   |
|   |   |   |   | 196/5ई    | 196/5ई2   | निजी | मनाई  | 220  | अंगप्पान पुत्र पाचियप्पा कोनदेर  |
|   |   |   |   | 196/13बी  | 196/13बी2 | निजी | मनाई  | 70   | ईलुमलाई पुत्र लक्ष्मणन   |
|   |   |   |   | 196/14ई   | 196/14ई2  | निजी | मनाई  | 245  | ईलुमलाई पुत्र रामासामी कोनदेर  |
|   |   |   |   | 196/14बी1 | 196/15    | निजी | शुष्क | 245  | अयानार पुत्र केशवा कोनदेर  |
|   |   |   |   | 196/14बी2 | 196/16    | निजी | शुष्क | 85   | अयानार पुत्र केशवा कोनदेर  |
|   |   |   |   | 198/7ई    | 198/7ई2   | निजी | शुष्क | 25   | मनी मेसत्री पुत्र गोपाल एवं 11 सदस्य   |
|   |   |   |   | 198/7बी   | 198/7बी2  | निजी | शुष्क | 660  | मनी मेसत्री पुत्र गोपाल एवं 11 सदस्य   |
|   |   |   |   | 198/13    | 198/18बी  | निजी | शुष्क | 350  | 1. जयाबालन पुत्र रामासामी<br>2. गोविन्दन<br>3. गुनाशेखरन   |
|   |   |   |   | 198/15    | 198/19    | निजी | शुष्क | 100  | 1. जयाबालन पुत्र रामासामी<br>2. गोविन्दन<br>3. गुनाशेखरन   |
|   |   |   |   | 198/21    | 198/21बी  | निजी | शुष्क | 370  | 1. जयाबालन पुत्र रामासामी<br>2. गोविन्दन<br>3. गुनाशेखरन   |
|   |   |   |   | 198/22    | 198/22बी  | निजी | शुष्क | 330  | 1. समबत पुत्र ईलुमलाई<br>2. कमलाकाननान<br>3. अरुमुगम   |
|   |   |   |   | 200/1     | 200/1बी   | निजी | शुष्क | 715  | 1. परासुरामन पुत्र गोविन्दा पिल्लै<br>2. पांदुरांगन<br>3. सुबुरायन<br>4. कृष्णन<br>5. रामाकृष्णन   |
|   |   |   |   | 200/2     | 200/2बी   | निजी | शुष्क | 30   | ईय्यासामी पिल्लै पुत्र मनी पिल्लै  |
|   |   |   |   | 200/4     | 200/4बी   | निजी | शुष्क | 455  | कान्ना पिल्लै पुत्र दुराईसामी पिल्लै   |
|   |   |   |   | 200/5     | 200/5बी   | निजी | शुष्क | 490  | 1. शेखर पुत्र ईलला पिल्लै<br>2. ईलुमलाई पुत्र ईला पिल्लै   |
|   |   |   |   | 200/6     | 200/6बी   | निजी | शुष्क | 645  | 1. परासुरामन पुत्र गोविन्दा पिल्लै<br>2. पांदुरांगन पुत्र गोविन्दा पिल्लै<br>3. कृष्णन पिल्लै पुत्र गोविन्दा पिल्लै<br>4. रामाकृष्णन पिल्लै पुत्र गोविन्दा पिल्लै<br>5. सुबुरायन पुत्र गोविन्दा पिल्लै |
|   |   |   |   | 200/16    | 200/16बी  | निजी | शुष्क | 1380 | कान्ना पिल्लै पुत्र दुराईसामी पिल्लै   |
|   |   |   |   | 201/1     | 201/1बी   | निजी | शुष्क | 400  | ईलुमलाई पुत्र रामासामी कोनदेर  |
|   |   |   |   | 201/3ई    | 201/3ई    | निजी | मनाई  | 200  | गोविन्दाराजु पुत्र रथिना मिस्त्री  |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5       | 6        | 7    | 8     | 9   |   |
|---|---|---|---|---------|----------|------|-------|-----|---|
|   |   |   |   | 201/3बी | 201/3बी2 | निजी | शुष्क | 115 | 1. गोविन्दाराजु पुत्र रथिना मिस्त्री<br>2. मनी पुत्र गोपाल<br>3. ईलुमलाई पुत्र रामासामी |
|   |   |   |   | 201/4   | 201/4    | निजी | मनाई  | 150 | अरुणचलम पुत्र वरधा पिल्लै   |
|   |   |   |   | 201/5ए  | 201/5ए2  | निजी | शुष्क | 90  | अरुणचलम पुत्र वरधा पिल्लै   |
|   |   |   |   | 201/6ए  | 201/6ए   | निजी | मनाई  | 147 | शिवा पुत्र गोपाल मिस्त्री   |
|   |   |   |   | 201/6बी | 201/6बी2 | निजी | शुष्क | 210 | 1. गोपाल पुत्र मुथल मिस्त्री<br>2. कृष्णन पुत्र मुथाल मिस्त्री                          |
|   |   |   |   | 201/7ए  | 201/7ए2  | निजी | मनाई  | 295 | मनीककाम पुत्र चिन्नाथमबी पिल्लै   |
|   |   |   |   | 201/7बी | 201/7बी2 | निजी | शुष्क | 260 | अरुमुगा पिल्लै पुत्र नटेश पिल्लै  |
|   |   |   |   | 201/8   | 201/8बी  | निजी | शुष्क | 320 | नरायणन सामी पुत्र विरपाथीरा कोनदेर  |
|   |   |   |   | 201/10  | 201/10बी | निजी | शुष्क | 665 | नरायणन सामी पुत्र विरपाथीरा कोनदेर  |
|   |   |   |   | 201/11  | 201/11बी | निजी | शुष्क | 300 | साथियाम् पुत्र चिन्मिया कोनदेर  |
|   |   |   |   | 201/12  | 201/12बी | निजी | शुष्क | 250 | वसन्था पत्नी अरीगोविन्दन  |
|   |   |   |   | 209     | 209/2    | निजी | शुष्क | 260 | अरुलमीगु वरासिथि विनायगर काईल नामबगर  |
|   |   |   |   | 226/1   | 226/1बी  | निजी | शुष्क | 515 | 1. जय्याराम कोनदेर पुत्र गोपाल<br>2. मुखि पुत्र पेरीकासामी                              |
|   |   |   |   | 226/4   | 226/4बी  | निजी | शुष्क | 130 | 1. कासी कोनदेर पुत्र नटेश कोनदेर<br>2. जयसामा कोनदेर पुत्र नटेश कोनदेर                  |

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11012/19/2004 (भाग)]

प्रभुकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2009

**.O.465(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.2139 (E), dated the 29<sup>th</sup> August, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.66, on the

stretch of land from Km.3.600 to Km.37.920 (Pondicherry - Tindivanam Section) in Viluppuram District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "THE HINDU" and "DINATHANTHI", both dated the 05<sup>th</sup> October, 2008, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 3.600 to Km 37.920 (Pondicherry - Tindivanam Section) on the National Highway No 66 in Viluppuram District in the State of Tamil Nadu.

| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number       |                    | Type of land | Extent of land | Area (in square meters) | Name of the land owner / Interested person |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------|--|
|               |                      |                   |                     | Before sub division | After sub division |              |                |                         |  |
| 1             | 2                    | 3                 | 4                   | 5                   | 6                  | 7            | 8              | 9                       | 10   |
| 1             | Viluppuram           | Vanur             | (1) Irumbai         | 13/8                | 13/8B              | Private      | Wet            | 440                     | Rasu Gounder, S/o. Anakkutti               |
|               |                      |                   |                     | 15/1                | 15/1B              | Private      | Wet            | 8440                    | Velmurugan S/o.Kuppusamy                   |
|               |                      |                   |                     | 15/3B               | 15/3B2             | Private      | Wet            | 407                     | Arumigu Kaleeshwarar Temple.               |
|               |                      |                   |                     | 15/3B               | 15/3B3             | Private      | Wet            | 12                      | Arumigu Kaleeshwarar Temple.               |
|               |                      |                   |                     | 15/5                | 15/5B              | Private      | Wet            | 650                     | Kannammal w/o. Kannan                      |
|               |                      |                   |                     | 15/6                | 15/6B              | Private      | Wet            | 2390                    | Sundharamoorthy S/o. Kuppusamy             |
|               |                      |                   |                     | 16/1B               | 16/1B2             | Private      | Wet            | 32                      | Mallika W/o. Krishnen                      |
|               |                      |                   |                     | 16/1C               | 16/1C2             | Private      | Wet            | 113                     | Arumugam S/o.Gopal                         |
|               |                      |                   |                     | 16/4A               | 16/4A2             | Private      | Wet            | 300                     | Arumugam S/o.Gopal                         |
|               |                      |                   |                     | 16/4B               | 16/4B2             | Private      | Wet            | 500                     | Gnananvel S/o. Murugan                     |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5      | 6       | 7       | 8   | 9    | 10  |
|---|---|---|---|--------|---------|---------|-----|------|---|
|   |   |   |   | 16/5   | 16/5B   | Private | Wet | 1595 | 1. Natarajan S/o.Rajamani<br>2. Jayakumar S/o.Rajamani  |
|   |   |   |   | 52/3   | 52/3B   | Private | Dry | 117  | Narayanasamy S/o.Puthira Gounder  |
|   |   |   |   | 52/4   | 52/4B   | Private | Dry | 500  | 1. Ammaniyammal W/o.Selvaraj,<br>2. Thirunavukarasu S/o.Narayanasamy  |
|   |   |   |   | 52/5   | 52/5    | Private | Dry | 850  | 1. Narayanasamy S/o.Puthira Gounder<br>2. Thirunavukarasu S/o.Narayanasamy  |
|   |   |   |   | 52/6   | 52/6B   | Private | Dry | 550  | Trustee Arulmigu Mariyamman Koil  |
|   |   |   |   | 52/7   | 52/7B   | Private | Dry | 960  | Arulmigu Maha Kaleeswarar Temple.   |
|   |   |   |   | 52/13A | 52/13A2 | Private | Dry | 5850 | Jayakumar S/o.Rajamani  |
|   |   |   |   | 52/14  | 52/14B  | Private | Dry | 2248 | Arulmigu Maha Kaleeswarar Temple.   |
|   |   |   |   | 53/1   | 53/1B   | Private | Dry | 550  | Jayarama Naidu, S/o. Devarajulu Naidu   |
|   |   |   |   | 53/2   | 53/2    | Private | Dry | 950  | Govindharajulu S/o.Balakrishnan   |
|   |   |   |   | 53/3   | 53/3B   | Private | Dry | 800  | Venkatasamy S/o. Samy Naidu   |
|   |   |   |   | 53/4   | 53/4B   | Private | Dry | 1053 | 1. Ramanujam, S/o.Venkatasamy Naidu, Guardian Mother Janagammal.  |
|   |   |   |   | 53/5   | 53/5B   | Private | Dry | 850  | Varadharaju Naidu S/o. Samy Naidu   |
|   |   |   |   | 53/6A  | 53/6A2  | Private | Dry | 52   | 1. Ramasamy Pillai S/o.Anaiya Pillai<br>2. Govindharajulu, S/o. Balakrishnan<br>3. Saminadha Gurukai S/o.Rajamani<br>4. Amutha W/o. Sundara Vinayagam |
|   |   |   |   | 53/7   | 53/7B   | Private | Dry | 8300 | Natarajan S/o.Rajamani  |
|   |   |   |   | 53/9   | 53/9B   | Private | Dry | 1500 | Varadharaja Naidu, S/o. Samy Naidu  |
|   |   |   |   | 55/1   | 55/1B   | Private | Dry | 2250 | Govindammal, W/o. Jayarama Naidu  |
|   |   |   |   | 56/4   | 56/4B   | Private | Dry | 3650 | Jayarama Naidu S/o. Devarajulu Naidu  |
|   |   |   |   | 56/5   | 56/5B   | Private | Dry | 409  | 1.S. Kuppammal<br>2. Andal W/o. Nagamuthu   |
|   |   |   |   | 56/6   | 56/6B   | Private | Dry | 308  | Andal W/o. Nagamuthu  |
|   |   |   |   | 56/7A  | 56/7A2  | Private | Dry | 260  | Andal W/o. Nagamuthu  |
|   |   |   |   | 56/7B2 | 56/7B2  | Private | Dry | 300  | Boomindhanam Board  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5      | 6       | 7       | 8   | 9     | 10   |
|---|---|---|---|--------|---------|---------|-----|-------|--|
|   |   |   |   | 56/7C  | 56/7C2  | Private | Dry | 40    | Boomindhanam Board                                   |
|   |   |   |   | 64/3A  | 64/3A2  | Private | Dry | 2960  | Jayarama Naidu<br>S/o. Devarajulu Naidu              |
|   |   |   |   | 66/1   | 66/1B   | Private | Dry | 280   | 1. Natarajan S/o.Perumal<br>2. Ethiraj S/o. Perumal. |
|   |   |   |   | 66/2   | 66/2B   | Private | Dry | 175   | Dhanabal<br>S/o.Perumal                              |
|   |   |   |   | 66/3   | 66/3B   | Private | Dry | 70    | Ranganathan<br>S/o.Poongavanam                       |
|   |   |   |   | 66/4   | 66/4B   | Private | Dry | 4     | Dhanabal<br>S/o.Perumal                              |
|   |   |   |   | 66/6   | 66/6B   | Private | Dry | 97    | Perumal S/o. Ragavan                                 |
|   |   |   |   | 68/1   | 68/1B   | Private | Dry | 1875  | Indirani<br>W/o. Namadev Gounder                     |
|   |   |   |   | 68/2   | 68/2B   | Private | Dry | 10500 | Kuppusamy<br>S/o. Varadharajulu Naidu                |
|   |   |   |   | 70/2   | 70/2B   | Private | Dry | 1130  | Natarajan<br>S/o. Samykannu                          |
|   |   |   |   | 70/5   | 70/5B   | Private | Dry | 732   | Narayanasamy<br>S/o. Puthira Gounder                 |
|   |   |   |   | 70/6   | 70/6B   | Private | Dry | 835   | Secretary , Auroville<br>Foundation                  |
|   |   |   |   | 70/7   | 70/7B   | Private | Dry | 1730  | Subramani<br>S/o.Velayudha Gounder                   |
|   |   |   |   | 70/8   | 70/8B   | Private | Dry | 3200  | Krishnamoorthy<br>S/o.Vellaiamuthu                   |
|   |   |   |   | 70/9   | 70/9B   | Private | Dry | 67    | A. Sivagami Ammal                                    |
|   |   |   |   | 70/13  | 70/13B  | Private | Dry | 63    | Ramasamy<br>S/o.Venkatasamy                          |
|   |   |   |   | 71/7   | 71/7B   | Private | Dry | 450   | Govindhammal<br>W/o.Natesa Gounder                   |
|   |   |   |   | 71/8   | 71/8B   | Private | Dry | 280   | Velu Gounder<br>S/o.Chinnasamy                       |
|   |   |   |   | 75/1   | 75/1B   | Private | Dry | 2000  | Jayarama Naidu<br>S/o.Devarasalu Naidu               |
|   |   |   |   | 75/2   | 75/2B   | Private | Dry | 1390  | Rajagopal<br>S/o.Samykannu                           |
|   |   |   |   | 75/3   | 75/3B   | Private | Dry | 22    | Velmurugan<br>S/o.Rajagopal                          |
|   |   |   |   | 75/5   | 75/5B   | Private | Dry | 863   | Rajagopal<br>S/o.Samykannu                           |
|   |   |   |   | 75/6   | 75/6B   | Private | Dry | 1945  | Govindasamy Gounder<br>Muthusamy Gounder             |
|   |   |   |   | 75/7   | 75/7B   | Private | Dry | 5830  | Narayanasamy<br>S/o.Puthira Gounder                  |
|   |   |   |   | 75/9   | 75/9B   | Private | Dry | 774   | Thirunavukarasu<br>S/o.Narayanasamy                  |
|   |   |   |   | 75/11A | 75/11A2 | Private | Dry | 1230  | Tamizharasi<br>W/o.Thiruvengadam                     |
|   |   |   |   | 75/12  | 75/12B  | Private | Dry | 1638  | Tamizharasi<br>W/o.Thiruvengadam                     |
|   |   |   |   | 106/2  | 106/2B  | Private | Dry | 2460  | Varadharajulu<br>S/o.Duraisamy                       |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6       | 7       | 8     | 9    | 10   |
|---|---|---|---|------------------------|---------|---------|-------|------|--|
|   |   |   |   | 106/3                  | 106/3B  | Private | Dry   | 3870 | Gejaraj Ammal<br>W/o.Varadharajulu Naidu         |
|   |   |   |   | 106/5                  | 106/5B  | Private | Dry   | 526  | Krishnan S/o.Vadivel                             |
|   |   |   |   | 107/5                  | 107/5B  | Private | Dry   | 5325 | Lakshmi Devi<br>W/o.Rajagopal                    |
|   |   |   |   | 107/6                  | 107/6B  | Private | Dry   | 815  | Trustee Arul migu<br>Mariyamman Koil Temple      |
|   |   |   |   | 107/7                  | 107/7B  | Private | Dry   | 53   | Govindhathanthiriyar<br>S/o.Sadhasivthanthiriyar |
|   |   |   |   | 107/10                 | 107/10B | Private | Dry   | 1609 | Secretary, Auroville<br>Foundation               |
|   |   |   |   | 108/6                  | 108/6B  | Private | Dry   | 28   | Samykanu<br>S/o.Subburayan                       |
|   |   |   |   | 108/7                  | 108/7B  | Private | Dry   | 1047 | Machagandhi<br>W/o.Gunasekaran                   |
|   |   |   |   | 108/8                  | 108/8   | Private | Dry   | 1400 | K. Natesan Gounder                               |
|   |   |   |   | 108/9                  | 108/9B  | Private | Dry   | 560  | Gejaraj Ammal<br>W/o.Varadharajulu Naidu         |
|   |   |   |   | 108/10                 | 108/10B | Private | Dry   | 220  | Varadharajulu Naidu<br>S/o.Samy Naidu            |
|   |   |   |   | 110/6                  | 110/6B  | Private | Dry   | 710  | Loganathan<br>S/o.Ekambaram                      |
|   |   |   |   | 110/7                  | 110/7B  | Private | Dry   | 28   | Secretary, Auroville<br>Foundation               |
|   |   |   |   | 110/7                  | 110/7C  | Private | Dry   | 5430 | Secretary, Auroville<br>Foundation               |
|   |   |   |   | 111/1                  | 111/1B  | Private | Dry   | 150  | Kamalambai<br>W/o.Kuppusamy Gounder              |
|   |   |   |   | 111/2                  | 111/2B  | Private | Dry   | 9244 | Secretary, Auroville<br>Foundation               |
|   |   |   |   | 111/3                  | 111/3B  | Private | Dry   | 490  | Kajapathi<br>S/o.Thananjezhyan                   |
|   |   |   |   | 111/4                  | 111/4B  | Private | Dry   | 22   | Secretary, Auroville<br>Foundation               |
|   |   |   |   | 118/1A                 | 118/1A2 | Private | Dry   | 220  | Venkatesan<br>S/o.Balasubramania<br>Mudhaliyar   |
|   |   |   |   | 118/2A                 | 118/2A2 | Private | Dry   | 4510 | Secretary, Auroville<br>Foundation               |
|   |   |   |   | 64/3B<br>64/4B<br>64/5 | 64/3B2  | Private | Manai | 4250 | Government                                       |
|   |   |   |   | 64/6                   | 64/6    | Private | Manai | 250  | Pavada S/o.Gopal                                 |
|   |   |   |   | 64/7                   | 64/7    | Private | Manai | 150  | Kannappan<br>S/o.Lakshmanan                      |
|   |   |   |   | 64/8                   | 64/17   | Private | Manai | 204  | Ramados<br>S/o.Govindhasamy                      |
|   |   |   |   | 64/9                   | 64/18   | Private | Manai | 13   | Namasi S/o.Semban                                |
|   |   |   |   | 431/4                  | 431/4   | Private | Manai | 100  | Krishnan S/o.Perumal                             |
|   |   |   |   | 431/9                  | 431/9   | Private | Manai | 60   | Veerappan  |
|   |   |   |   | 431/10                 | 431/10  | Private | Manai | 200  | Munusamy<br>S/o.Periyasamy                       |

| 1 | 2 | 3 | 4                 | 5       | 6       | 7       | 8     | 9    | 10   |
|---|---|---|-------------------|---------|---------|---------|-------|------|--|
|   |   |   |                   | 431/11  | 431/11  | Private | Manai | 204  | Andal W/o. Nagamuthu   |
|   |   |   |                   | 431/13  | 431/13  | Private | Manai | 34   | Kannaiyan S/o. Manjini   |
|   |   |   |                   | 431/14  | 431/14  | Private | Manai | 37   | Kannaiyan S/o. Manjini   |
|   |   |   |                   | 431/15  | 431/15  | Private | Manai | 79   | Periyasamy S/o. Rasu   |
|   |   |   |                   | 431/16  | 431/16  | Private | Manai | 77   | Mangalakshmi<br>W/o. Periyasamy  |
|   |   |   |                   | 431/17  | 431/17  | Private | Manai | 84   | Sekar S/o. Munusamy  |
|   |   |   |                   | 431/18  | 431/18  | Private | Manai | 100  | Munusamy<br>S/o. Periyasamy  |
|   |   |   |                   | 431/19  | 431/19  | Private | Manai | 86   | Elumalai S/o. Periyasamy   |
|   |   |   |                   | 431/21  | 431/21  | Private | Manai | 87   | Muthammal W/o. Kannaiyan   |
|   |   |   |                   | 431/22  | 431/22  | Private | Manai | 61   | Pattammal W/o. Kaliyappan  |
|   |   |   |                   | 431/23  | 431/23  | Private | Manai | 48   | 1. Kannan<br>S/o. Sundharam<br>2. Kamatchi Ammal<br>W/o. Dhanabal            |
|   |   |   |                   | 431/25  | 431/25  | Private | Manai | 51   | Kamatchi Ammal,<br>W/o. Dhanapai   |
|   |   |   |                   | 431/27  | 431/27  | Private | Manai | 112  | Dhanaroobi<br>W/o. Chinnathambi  |
|   |   |   |                   | 431/28  | 431/28  | Private | Manai | 65   | Kamatchi Ammal<br>W/o. Dhanapai  |
|   |   |   |                   | 431/3   | 431/32  | Private | Manai | 62   | S. Ponnusamy   |
|   |   |   |                   | 431/29  | 431/34  | Private | Manai | 650  | Ramalingam<br>S/o. Thangavelu  |
|   |   |   |                   | 433/9   | 433/9   | Private | Manai | 183  | Sivagami<br>W/o. Vinayagam   |
|   |   |   |                   | 433/11  | 433/11  | Private | Manai | 120  | Adhilakshmi<br>W/o. Govindhan  |
|   |   |   |                   | 433/12  | 433/12  | Private | Manai | 120  | Govindhasamy<br>W/o. Natesan   |
|   |   |   |                   | 433/6   | 433/18  | Private | Manai | 18   | Banumathi<br>W/o. Dhandabani   |
|   |   |   |                   | 433/7   | 433/19  | Private | Manai | 107  | Ethirasu S/o. Perumal  |
|   |   |   |                   | 433/8   | 433/20  | Private | Manai | 195  | Lakshmanan<br>S/o. Varamuthu   |
|   |   |   | (2) Pulichapallam | 132/3B  | 132/3B  | Private | Dry   | 1306 | President, Pauls<br>Educational Trust.                                       |
|   |   |   |                   | 132/4B  | 132/4B  | Private | Dry   | 94   | President, Pauls<br>Educational Trust.                                       |
|   |   |   |                   | 253/1B  | 253/1B  | Private | Dry   | 323  | President, Pauls<br>Educational Trust.                                       |
|   |   |   |                   | 257/1C  | 257/1B  | Private | Dry   | 67   | Murugammal<br>W/o. Ekambaram   |
|   |   |   |                   | 301/5B  | 301/5B  | Private | Dry   | 73   | 1. Mannatha Gounder<br>S/o. Adhimoolam<br>2. Selvarani W/o. Elumalai         |
|   |   |   |                   | 302/12B | 302/12B | Private | Dry   | 110  | 1. Manjini<br>S/o. Sadasiva Gounder<br>2. K. Sankar<br>3. Velu S/o. Elumalai |

| 1 | 2 | 3 | 4                | 5      | 6       | 7       | 8   | 9    | 10  |
|---|---|---|------------------|--------|---------|---------|-----|------|---|
|   |   |   |                  | 305/5F | 305/5F  | Private | Dry | 100  | Varadarajan<br>S/o Chinnakannu  |
|   |   |   |                  | 307/5B | 307/5B  | Private | Dry | 82   | Jegadambal<br>W/o Subbaraya Gounder   |
|   |   |   |                  | 320/5B | 320/5B  | Private | Dry | 355  | 1.Namadev S/oVaithy<br>2.Shanmugam<br>S/o Ramasamy  |
|   |   |   |                  | 320/6B | 320/6B  | Private | Dry | 402  | Krishna Gounder<br>S/o Mannatha Gounder   |
|   |   |   |                  | 320/8B | 320/8B  | Private | Dry | 624  | 1.Devaraj<br>S/o Molakurichi,<br>2.Rajavel<br>S/o Ranganathan,<br>3.Rani W/o Natesan,<br>4.Pachaiammal<br>W/o Ranganathan |
|   |   |   |                  | 324/4B | 324/4B  | Private | Dry | 130  | 1.Ragavan S/o Gopal<br>2.Revathi Ragavan<br>W/o Ragavan   |
|   |   |   |                  | 325/3B | 325/3B  | Private | Dry | 916  | 1.Ragavan S/o Gopal<br>2.Revathi Ragavan<br>W/o Ragavan   |
|   |   |   |                  | 325/4B | 325/4B  | Private | Dry | 787  | 1.Ragavan S/o Gopal<br>2.Revathi Ragavan<br>W/o Ragavan   |
|   |   |   |                  | 519/2B | 519/2B  | Private | Dry | 727  | 1.Kuppusamy Naidu<br>S/o Govindasamy<br>2.Arumugam Naidu<br>S/o Gopal   |
|   |   |   |                  | 522/1B | 522/1B  | Private | Dry | 83   | Jeyalakshmi<br>W/o Ramadass Naidu   |
|   |   |   | (3)Thenkodipakka | 123    | 123/2   | Private | Dry | 2460 | Kalaimagal sabha  |
|   |   |   |                  | 125/1  | 125/1B  | Private | Dry | 3500 | Murali, (A) Raguram,<br>S/o. Subramania reddy.  |
|   |   |   |                  | 125/7  | 125/7B  | Private | Dry | 360  | Krishnan, s/o. Servai   |
|   |   |   |                  | 125/10 | 125/10B | Private | Dry | 305  | Subramanian, s/o Kuppan   |
|   |   |   |                  | 125/11 | 125/11B | Private | Dry | 270  | Chinakulandai, D/o. Servai.   |
|   |   |   |                  | 126/14 | 126/14B | Private | Dry | 3    | Iyyanthotti, s/o. Muniyan.  |
|   |   |   |                  | 126/16 | 126/16B | Private | Dry | 1200 | China kulandai, D/o.Servai  |
|   |   |   |                  | 126/17 | 126/17B | Private | Dry | 730  | Krisnan, s/o. Servai  |
|   |   |   |                  | 130/1  | 130/1B  | Private | Dry | 375  | 1.Perumal,<br>s/o. Seenu kounder,<br>2.Jayaraman,<br>3.Irusappan  |
|   |   |   |                  | 130/2  | 130/2B  | Private | Dry | 550  | S.M. Mohan  |
|   |   |   |                  | 130/2  | 130/2C  | Private | Dry | 500  | S.M. Mohan  |
|   |   |   |                  | 130/4  | 130/4B  | Private | Dry | 585  | Rajaveniammal,<br>w/o Masilamani kounder  |
|   |   |   |                  | 130/5  | 130/5B  | Private | Dry | 895  | Ranganatha kounder,<br>s/o Dhamothara kounder   |
|   |   |   |                  | 133/12 | 133/12B | Private | Dry | 2255 | Pandurangan,<br>s/o. Subramani  |
|   |   |   |                  | 138/1  | 138/1B  | Private | Dry | 515  | Mariammal, w/o Angappan   |
|   |   |   |                  | 138/2  | 138/2B  | Private | Dry | 505  | Magalingam,<br>s/o.Narayanasamy kounder   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5      | 6       | 7       | 8     | 9    | 10  |
|---|---|---|---|--------|---------|---------|-------|------|---|
|   |   |   |   | 138/5  | 138/5B  | Private | Dry   | 940  | Veerapathiran,<br>s/o. Manikkam   |
|   |   |   |   | 143/1A | 143/1A2 | Private | Dry   | 445  | Selvamani,<br>s/o. Natesa kounder.  |
|   |   |   |   | 143/1B | 143/1B2 | Private | Dry   | 525  | 1. Kunasekaran,<br>s/o. Ramu kounder,<br>2. Anusuya,<br>w/o. Ranganatha Reddiar,<br>3. Meenatchi,<br>w/o. Devanatha Reddiar           |
|   |   |   |   | 144/2A | 144/2A2 | Private | Dry   | 770  | Kannan, s/o Manikkam  |
|   |   |   |   | 144/2B | 144/2B2 | Private | Dry   | 400  | Selvamani,<br>s/o. Natesa Pillai  |
|   |   |   |   | 146/8  | 146/8B  | Private | Dry   | 185  | S.M. Mohan  |
|   |   |   |   | 146/9  | 146/9B  | Private | Dry   | 3125 | Mangalakshmi,<br>w/o. Narayanasamy  |
|   |   |   |   | 146/10 | 146/10B | Private | Dry   | 1035 | Ravi, s/o. Kanniyappa<br>kounder  |
|   |   |   |   | 147/2  | 147/2B  | Private | Dry   | 240  | 1. Angappan,<br>s/o. Pachaiyappa kounder.<br>2. Manikkam,<br>s/o. Pachaiyappa kounder.<br>3. Subramanian,<br>s/o. Pachaiyappa kounder |
|   |   |   |   | 147/3  | 147/3B  | Private | Dry   | 530  | Angappan, s/o.<br>Pachaiyappa kounder   |
|   |   |   |   | 147/4  | 147/4B  | Private | Dry   | 1175 | Angappan, s/o.<br>Pachaiyappa kounder   |
|   |   |   |   | 185/2  | 185/2   | Private | Manai | 79   | Thangavel Pillai,<br>s/o Muruges Pillai   |
|   |   |   |   | 185/5  | 185/5   | Private | Manai | 71   | Elammal, w/o. Rajendiran  |
|   |   |   |   | 185/6  | 185/6   | Private | Manai | 101  | Sellammal,<br>w/o. Samikkannu Pillai  |
|   |   |   |   | 185/7  | 185/7B  | Private | Manai | 50   | Arumugam,<br>s/o. Kuppusamy   |
|   |   |   |   | 185/12 | 185/12  | Private | Manai | 118  | Athilakshmiammal,<br>w/o. Palani kounder  |
|   |   |   |   | 185/13 | 185/13B | Private | Manai | 191  | Pandurangan,<br>s/o. Muruges Pillai   |
|   |   |   |   | 185/17 | 185/17  | Private | Manai | 345  | Chandara kounder,<br>s/o. Veerapathira kounder  |
|   |   |   |   | 185/19 | 185/19  | Private | Manai | 148  | Ranganatha kounder,<br>s/o. Natesa kounder  |
|   |   |   |   | 185/20 | 185/20  | Private | Manai | 123  | Vaithilingam,<br>s/o. Munusamy kounder  |
|   |   |   |   | 185/21 | 185/21  | Private | Manai | 121  | Mani, s/o. Gopal Mesthiri   |
|   |   |   |   | 185/22 | 185/22B | Private | Manai | 88   | Mani, s/o. Gopal Mesthiri   |
|   |   |   |   | 185/23 | 185/23  | Private | Manai | 215  | Maia, w/o. Magarajan  |
|   |   |   |   | 185/24 | 185/24  | Private | Manai | 39   | Thangavel Pillai,<br>s/o. Muruges Pillai  |
|   |   |   |   | 186/3  | 186/3   | Private | Manai | 600  | Narayanasamy,<br>s/o. Thiruvankata kounder  |
|   |   |   |   | 186/4A | 186/4A  | Private | Manai | 261  | Sengeni,<br>w/o. Ramalingam Pillai  |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5      | 6       | 7       | 8     | 9   | 10   |
|---|---|---|---|--------|---------|---------|-------|-----|--|
|   |   |   |   | 186/4B | 186/4B2 | Private | Dry   | 12  | Sengeni,<br>w/o. Ramalingam Pillai   |
|   |   |   |   | 186/5A | 186/5A2 | Private | Dry   | 400 | 1.Kunasekaran,<br>s/o. Ramasamy kounder,<br>2.Jayapal,<br>3.Govindan,<br>4.Sampath,<br>5.Kamalakannan,<br>6.Arumugam s/o. Elumalai |
|   |   |   |   | 186/5B | 186/5B2 | Private | Dry   | 45  | 1.Kunasekaran,<br>s/o. Ramasamy kounder,<br>2.Jayapal,<br>3.Govindan,<br>4.Sampath,<br>5.Kamalakannan,<br>6.Arumugam s/o. Elumalai |
|   |   |   |   | 186/6A | 186/6A2 | Private | Dry   | 246 | 1.Natesa Pillai,<br>S/o. Chinnathambi,<br>2.Elumalai,<br>s/o. Ramasamy,<br>3.Pandurangan,<br>s/o. Subramani.                       |
|   |   |   |   | 186/6B | 186/6B2 | Private | Dry   | 380 | 1.Natesa Pillai,<br>S/o. Chinnathambi,<br>2.Elumalai,<br>s/o. Ramasamy,<br>3.Pandurangan,<br>s/o. Subramani.                       |
|   |   |   |   | 282/1  | 282/1   | Private | Manai | 117 | Anjalachi,<br>w/o. Kanniyappan   |
|   |   |   |   | 282/2  | 282/2B  | Private | Manai | 69  | Arumugam,<br>s/o. Kuppusamy  |
|   |   |   |   | 282/3  | 282/3B  | Private | Manai | 153 | Chandra kounder,<br>s/o.Veerapathira kounder   |
|   |   |   |   | 282/6  | 282/6   | Private | Manai | 54  | Natarajan,<br>s/o. Kodya kounder   |
|   |   |   |   | 282/7  | 282/7   | Private | Manai | 117 | Maharajan, s/o.<br>Pachaiyappa kounder   |
|   |   |   |   | 196/4A | 196/4A  | Private | Manai | 50  | 1.Sankar, s/o. Mani,<br>2.Mohan, s/o. Mani,<br>3.Ganesan, s/o. Mani  |
|   |   |   |   | 196/4B | 196/4B  | Private | Dry   | 179 | 1.Suburayan,<br>s/o.Thiruvankata kounder,<br>2.Kannan,<br>3.Perumal,<br>s/o. Seenu kounder,<br>4.Jayaraman,<br>S/o.Seenu kounder   |
|   |   |   |   | 196/4C | 196/4C2 | Private | Dry   | 114 | 1.Suburayan,<br>s/o.Thiruvankata kounder,<br>2.Kannan,<br>3.Perumal,<br>s/o. Jayaraman,<br>4.Seenu kounder                         |
|   |   |   |   | 196/4D | 196/4D2 | Private | Manai | 145 | Sekar,<br>s/o. Perumal kounder   |
|   |   |   |   | 196/5A | 196/5A2 | Private | Dry   | 14  | 1.Sankar,<br>s/o. Narasu Reddiar,<br>2.Sundaravaradan,<br>s/o. Narasu Reddiar  |
|   |   |   |   | 196/5B | 196/5B2 | Private | Manai | 193 | Mayan,<br>s/o.Pachaiyappa kounder  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5        | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   |
|---|---|---|---|----------|----------|---------|-------|------|--|
|   |   |   |   | 196/5C   | 196/5C2  | Private | Manai | 125  | Maharajan,<br>s/o. Pachaiyappa kounder   |
|   |   |   |   | 196/5D   | 196/5D2  | Private | Manai | 125  | Manikkam,<br>s/o. Pachaiyappa kounder  |
|   |   |   |   | 196/5E   | 196/5E2  | Private | Manai | 122  | Subramanian<br>S/o. Pachaiyappa kounder  |
|   |   |   |   | 196/5F   | 196/5F2  | Private | Manai | 220  | Angappan,<br>s/o. Pachaiyappa kounder  |
|   |   |   |   | 196/13B  | 196/13B2 | Private | Manai | 70   | Elumalai s/o. Lakshmanan   |
|   |   |   |   | 196/14A  | 196/14A2 | Private | Manai | 245  | Elumalai,<br>s/o. Ramasamy kounder   |
|   |   |   |   | 196/14B1 | 196/15   | Private | Dry   | 245  | Ayyanar.<br>S/o Kesava kounder   |
|   |   |   |   | 196/14B2 | 196/16   | Private | Dry   | 85   | Ayyanar.<br>S/o Kesava kounder   |
|   |   |   |   | 198/7A   | 198/7A2  | Private | Dry   | 25   | Mani mesthiri, s/o. Gopal<br>and 11 members  |
|   |   |   |   | 198/7B   | 198/7B2  | Private | Dry   | 660  | Mani mesthiri, s/o. Gopal<br>and 11 members  |
|   |   |   |   | 198/18   | 198/18B  | Private | Dry   | 350  | 1. Jayabal s/o. Ramasamy,<br>2. Govindan,<br>3. Gunasekar  |
|   |   |   |   | 198/19   | 198/19   | Private | Dry   | 100  | 1. Jayabal s/o. Ramasamy,<br>2. Govindan,<br>3. Gunasekar  |
|   |   |   |   | 198/21   | 198/21B  | Private | Dry   | 370  | 1. Jayabal s/o. Ramasamy,<br>2. Govindan,<br>3. Gunasekar  |
|   |   |   |   | 198/22   | 198/22B  | Private | Dry   | 330  | 1. Sambath s/o. Elumalai,<br>2. Kamalakannan,<br>3. Arumugam   |
|   |   |   |   | 200/1    | 200/1B   | Private | Dry   | 715  | 1. Parasuraman,<br>s/o. Govinda Pillai,<br>2. Pandurangan,<br>3. Suburayan,<br>4. Krishnan,<br>5. Ramakrishnan   |
|   |   |   |   | 200/2    | 200/2B   | Private | Dry   | 30   | Iyyasamy Pillai,<br>s/o. Mani Pillai   |
|   |   |   |   | 200/4    | 200/4B   | Private | Dry   | 455  | Kanna Pillai,<br>s/o. Duraisamy Pillai   |
|   |   |   |   | 200/5    | 200/5B   | Private | Dry   | 490  | 1. Sekar, s/o. Ella Pillai,<br>2. Elumalai, s/o. Ella Pillai   |
|   |   |   |   | 200/6    | 200/6B   | Private | Dry   | 645  | 1. Parasuraman,<br>s/o. Govindarasu Pillai,<br>2. Pandurangan,<br>s/o. Govindarasu Pillai,<br>3. Krishna Pillai,<br>s/o. Govindarasu Pillai,<br>4. Ramakrishna Pillai,<br>s/o. Govindarasu Pillai,<br>5. Suburayan,<br>s/o. Govindarasu Pillai |
|   |   |   |   | 200/16   | 200/16B  | Private | Dry   | 1380 | Kanna Pillai,<br>s/o. Duraisamy Pillai   |
|   |   |   |   | 201/1    | 201/1B   | Private | Dry   | 400  | Elumalai, s/o. Ramasamy<br>kounder   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5      | 6       | 7       | 8     | 9   | 10   |
|---|---|---|---|--------|---------|---------|-------|-----|--|
|   |   |   |   | 201/3A | 201/3A  | Private | Manai | 200 | Govindaraju, s/o. Rathina Mesthri  |
|   |   |   |   | 201/3B | 201/3B2 | Private | Dry   | 115 | 1. Govindaraju, s/o. Rathina mesthri, 2. Mani, s/o. Gopal 3. Elumalai, s/o. Ramasamy |
|   |   |   |   | 201/4  | 201/4   | Private | Manai | 150 | Arunachalam, s/o. Varadha Pillai   |
|   |   |   |   | 201/5A | 201/5A2 | Private | Dry   | 90  | Arunachalam, s/o. Varadha Pillai   |
|   |   |   |   | 201/6A | 201/6A  | Private | Manai | 147 | Siva, s/o. Gopal Mesthri   |
|   |   |   |   | 201/6B | 201/6B2 | Private | Dry   | 210 | 1. Gopal s/o. Muthal Mesthri, 2. Krishnan, s/o. Muthal Mesthri                       |
|   |   |   |   | 201/7A | 201/7A2 | Private | Manai | 295 | Manikkam, s/o. Chinathambi Pillai  |
|   |   |   |   | 201/7B | 201/7B2 | Private | Dry   | 260 | Arumuga Pillai, s/o. Natesa Pillai   |
|   |   |   |   | 201/8  | 201/8B  | Private | Dry   | 320 | Narayanasamy, s/o. Veerapathira kounder  |
|   |   |   |   | 201/10 | 201/10B | Private | Dry   | 665 | Narayanasamy, s/o. Veerapathira kounder  |
|   |   |   |   | 201/11 | 201/11B | Private | Dry   | 300 | Santhiyagu, s/o. Chinappa kounder  |
|   |   |   |   | 201/12 | 201/12B | Private | Dry   | 250 | Vasantha, w/o. Arigovindan   |
|   |   |   |   | 209    | 209/2   | Private | Dry   | 260 | Arulmigu Varasithi, Vinayagar Koil nambagar  |
|   |   |   |   | 226/1  | 226/1B  | Private | Dry   | 515 | 1. Jayarama kounder, s/o. Gopal, 2. Murthi s/o. Periyasamy                           |
|   |   |   |   | 226/4  | 226/4B  | Private | Dry   | 130 | 1. Kasi kounder, s/o. Natesa kounder, 2. Jayarama Kounder, S/o. Natesa kounder       |

[F. No. NHAI/BOT/11012/19/2004 (Pt.)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.